

I. समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण

सितंबर 2014 से खुदरा मुद्रास्फीति में व्यापक गिरावट, बुनियादी संरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार के बजट में घोषित योजनाएँ, उपभोक्ता मूल्यों में कमी और बाजार की आशावादी परिस्थितियों से 2015-16 में संवृद्धि की संभावनाएँ बढ़ी हैं। 2015-16 में खुदरा मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से नीचे रहने का पूर्वानुमान है, जो जनवरी 2016 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अंदर है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती बनी रहने से तथा अवरोधक निविष्टि लागतों से अस्फीतिकारी प्रभाव जारी रहना चाहिए, जबतक कि यह वैश्विक उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन और/ अथवा दक्षिण-पश्चिमी मानसून में कमी नहीं हो।

सितंबर 2014 के पहले मौद्रिक नीति वक्तव्य से वैश्विक और घरेलू परिवेश में संरचनागत परिवर्तनों से आरंभिक परिस्थितियों में जबर्दस्त बदलाव आया है, जिसने स्टाफ के दृष्टिकोण को मजबूत आधार दिया है। पूर्वानुमानों के अधिकांश महत्वपूर्ण आघात अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कीमतों में, खासकर क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक गिरावट से संबंधित रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह कच्चे मालों और अर्द्धनिर्मित मालों की कीमतों में बड़ी नरमी के रूप में दिखेगी। इसका प्रभाव अंतरण अर्थिक गतिविधियों में सुस्ती बने रहने, कमजोर मूल्य शक्ति और उत्पाद मूल्य दबावों के प्रत्याशित कमी को तेजी से बढ़ाने के रूप में होगा।

स्टाफ के आधारभूत अनुमानों को सही नहीं ठहरने के लिए अन्य कारण विभिन्न गतियाँ रही हैं जिन पर विश्व भर की वैश्विक गतिविधि होती रही है। गिरावट वाली कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही मंदी की प्रवृत्ति वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की - अमेरिका को छोड़कर - बाहरी माँगें कम हुई हैं तथा बिक्री योग्य वस्तुओं की कीमतों में संकुचन आया है। भारत के लिए आयात कीमतों में निर्यात कीमतों की तुलना में तेजी से गिरावट हुई है, जिसने व्यापार की शर्तों को अप्रत्याशित लाभ पहुँचाया है तथा आयात संबंधी मुद्रास्फीति दबावों को भी कम किया है। अमेरिका से प्राप्त आँकड़ों ने शुरूआती मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के भय को कम किया है तथा यूरोप, जापान और चीन तथा अन्य स्थानों में भी अति उदार मौद्रिक नीतियों का नियंत्रण तथा वित्तीय बाजारों में जोखिम का जोर बने रहने के कारण भारत पूँजीगत प्रवाहों के लिए एक बेहतर स्थान रहा है। रुपये की

¹ सितंबर 2014 में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट के लिए अनुमानित प्रति बैरल 100 अमेरिकी डॉलर की बेस लाइन की तुलना में अक्टूबर- मार्च के लिए औसत मूल्य प्रति बैरल लगभग 64 अमेरिकी डॉलर रहा।

विनियम दर में भाव बढ़ जाने की तीव्र संभावनाओं ने इसके साथ एक अवसरीति गति लाने का कार्य किया है।

घरेलू स्तर पर, जुलाई-अगस्त में आपूर्ति की बाधाओं से आए अवरोधों के बाद सितंबर से फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी आई है। सकारात्मक आपूर्ति प्रबंधन कार्यनीतियों और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गति में संतुलन के माध्यम से खाद्य मुद्रास्फीति प्रत्याशा से अधिक कमी आई है²। अन्य अनुकूल लेकिन अप्रत्याशित नतीजा सामने आया है कि अवरुद्ध लागत प्रेरित दबावों में ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि में अप्रैल-अक्टूबर 2013 के 16 प्रतिशत की तुलना में जनवरी 2015 में 6 प्रतिशत से कम की तीव्र कमी आई है³। इन कारकों के मेल से मौद्रिक नीति का मुद्रास्फीति निवारक रुख मजबूत हुआ है तथा इसने सितंबर 2013 से जनवरी 2014 के बीच की अवधि में प्रभावी नीति दरों में वृद्धि के प्रभाव को प्रोत्साहित किया है। ऐसा होने से ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति⁴ जनवरी 2015 के 8 प्रतिशत के लक्ष्य से (लगभग 300 आधार अंकों से) कम रही है।

आगे बढ़ते हुए, आरंभिक परिस्थितियों के स्टाफ के मूल्यांकन और इसके परिणामस्वरूप इस मौद्रिक नीति रिपोर्ट में पूर्वानुमानों में संशोधन मूलतः इन नतीजों के आधार पर ही किए गए हैं। दृष्टिकोण भी फरवरी 2015 में प्रस्तुत की गई नयी मौद्रिक नीति रूपरेखा, जिसमें भारत के मौद्रिक इतिहास की एक प्रतिच्छाया मौजूद थी, से लगभग प्रभावित होगा।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्थागत संरचना के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो मौद्रिक नीति के एक उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थिरता को प्रधानता देती हो। मौद्रिक नीति रूपरेखा करार मौद्रिक नीति के संचालन को एक मामूली धुमावदार दिशा देने की ओर ध्यान केंद्रित करता है जिसे संख्यात्मक रूप में परिभाषित करते हुए 2015-16 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम तथा बाद के सभी वर्षों में, इस बैंड के मध्य-बिंदु अर्थात् 2017-18 के अंत तक 4 प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के साथ ही, 4 +/- 2 प्रतिशत के रखे जाने साथ की अपेक्षा है। तीन लगातार तिमाहियों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल


² अभी तक, 2014-15 की दूसरी छमाही के दौरान औसत खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल-सितंबर 2014 के 8.2 प्रतिशत से 340 आधार अंक कम हो गई है।

³ नवंबर 2013 में श्रमिक ब्यूरो द्वारा ग्रामीण वेतन शृंखला का संशोधन करने के बाद वेतन वृद्धि दर वास्तविक रूप से तुलनीय नहीं है।

⁴ जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (ग्रामीण तथा शहरी) अथवा सीपीआई-सी (बेस 2012= 100) में हुए परिवर्तन से संबंधित है।

रहने पर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसमें मुद्रास्फीति के अपने लक्ष्यों से विचलन के कारणों के बारे में गर्वनर द्वारा सार्वजनिक तौर पर वक्तव्य देना, सुधारात्मक कार्रवाई और मुद्रास्फीति के लक्ष्य बैंड के मध्य-बिंदु तक मुद्रास्फीति को वापस लाए जाने के लिए जो समय लिया जाएगा उसके बारे में बताया जाना शामिल है। यह फ्लेक्जिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (एफआइटी) फ्रेमवर्क मौद्रिक नीति और विशेष रूप से मुद्रास्फीति के लक्ष्यों तय किए जाने की कोशिश की विश्वसनीयता और प्रभावकारिता को बहुत अधिक बढ़ाता है। इस फ्रेमवर्क के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इसकी विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप में बढ़ाता है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में मौद्रिक नीति पर आने वाले बोझ को कम करने के लिए राजकोषीय पक्ष तथा आपूर्ति की बाधाओं पर अपनी भूमिका को निभाएगी।

अग्रदर्शी सर्वेक्षणों में व्यक्त किए गए मतों के अनुसार विभिन्न आर्थिक एजेन्टों के मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएँ आसान हुई हैं, जिनसे मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रत्याशाएँ किए जाने तथा रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्यों के प्रति बढ़ती हुई विश्वसनीयता की आंशिक झलक मिलती है। यद्यपि मुद्रास्फीति के तीन महीने आगे तथा एक वर्ष आगे की घरेलू प्रत्याशाएँ जनवरी-फरवरी 2015 में



खुदरा मुद्रास्फीति की तुलना में मार्च 2015 में थोड़ी कम सामान्य रही हैं क्योंकि खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति में नरमी ने संभवतः उन प्रत्याशाओं को आगे बढ़ने को धीमा कर दे रही हैं। (चार्ट 1.1 और बॉक्स 1.1) यह मार्च 2015 के लिए प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ताओं के

बॉक्स 1.1: मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ (ड्राइविंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन्स) के प्रेरक क्या हैं

मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के बीच गत्यात्मक अंतर्संबंध की समझ मौद्रिक नीति बनाए जाने के लिए महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति आउटपुट अंतराल और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है, जिनमें से दोनों सकल माँग में संतुलन के माध्यम से मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं। जिन देशों में मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ पूरी तरह से कसी हुई होती हैं, वहाँ मुद्रास्फीति, आउटपुट अंतरालों में विचलन जो फिलिप्स कर्व की ओर ले जाती है, के प्रति कम संवेदनशील होती है। इन देशों में मुद्रास्फीति बड़े आपूर्ति आधारों के प्रति बहुत ही कम संवेदनशील होती है। (बनकि, 2007)

सर्वे आधारित प्रत्याशाओं के पैमानों का रुख वास्तविक मुद्रास्फीति में परिवर्तन का कुछ-कुछ आगामी सत्र के लिए पीछे की ओर देखने वाला होता है। अक्सर खरीदे गए खाद्य उत्पादों की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ईंधन की कीमतों भी मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में तेजी से बदलाव लाती हैं, इसके बावजूद कि उपभोग की दृष्टि से इसका स्थान उतना

बड़ा नहीं है फिर भी इसकी कीमतों में होने वाला बदलाव मीडिया में व्यापक तौर पर प्रचारित होता है तथा उपभोग की वस्तुओं पर पड़ने वाले इसके वास्तविक प्रभाव से ज्यादा तेजी से यह मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को प्रभावित करता है। दीर्घविधि प्रत्याशाएँ औसतन अधिक स्थिर होती हैं। सितंबर 2008 से दिसंबर 2014 तक की अवधि के आँकड़ों का प्रायोगिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 3 महीने आगे की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में सब्जियों/फलों और पेट्रोल की कीमतों में बदलाव की अनुक्रिया में बड़े स्तर पर बदलाव होता है, जो एक साथ मिलकर मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में लगभग 60 प्रतिशत तक बदलाव कर देते हैं। पिछली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2014) में इन निष्कर्षों की पुष्टि हुई है, जब मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ तेजी से अस्वीकृत की गईं, जो नमूने में शामिल नहीं था जबकि अनुमानित गुणांक स्थिर रहा था।

मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने वाले देशों के अनुभव यह सुझाते हैं कि किसी केंद्रीय बैंक के कार्यों के संबंध में स्पष्टता के साथ प्रस्तुत

(जारी...)

एक विश्वसनीय मौद्रिक नीति रूपरेखा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर सही अंकुश लगाने में सहायता करती है। उदाहरण के तौर पर यू.के. में मई 1997 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए लिखतों की स्वतंत्रता की केवल घोषणा से ही सम्पूर्ण सत्र की संरचना में गिरावट के साथ ही मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में 50 आधार अंकों की अस्वीकृति दर्ज की गई। (हल्डाने, 2000)। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में मौद्रिक नीति रूपरेखा करार को वर्तमान में कार्य कर रही अवस्फीतिकारी शक्तियों को सुदृढ़ करने में समर्थ होना चाहिए तथा मुद्रास्फीति


प्रत्याशाओं पर मध्यावधि मुद्रास्फीति लक्ष्यों के आलोक में अंकुश लगाया जाना चाहिए।

संदर्भ :


बनकि, बैन.एस.(2007), "इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन्स ऐंड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग" , 10 जुलाई 2007

हल्डाने एन्ड्रयू (2000), "टारगेटिंग इन्फ्लेशन ; द यूनाइटेड किंगडम इन रेट्रोस्पेक्ट"

चार्ट 1.2: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ*



ख: दीर्घावधि में मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ




सर्वे से सामने आया है जिसमें पाँच वर्ष आगे की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में 50 आधार अंकों के साथ 5.3 प्रतिशत तक की गिरावट हुई है। प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ता यह आशा कर रहे हैं कि उपभोक्ता सूचकांक मुद्रास्फीति 2015-16 में 5.0 से 6.0 प्रतिशत के बीच रहेगी (चार्ट 1.2)। रिजर्व बैंक के इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे में यह दर्शाया गया है कि विनिर्माता आगामी सत्र में निविष्टि कीमतों में नरमी की आशा कर रहे हैं जिससे आर्थिक गतिविधि की सुस्ती की दृष्टि से उत्पादन कीमतों को एक अंतराल के साथ बदला जा सके। (चार्ट 1.3)

1.1 मुद्रास्फीति के लिए दृष्टिकोण

मुद्रास्फीति संबंधी भविष्यवाणियों को देखें तो शुरूआती परिस्थितियों में बड़े और अप्रत्याशित परिवर्तनों से संशोधित आधारभूत प्रत्याशाओं की जरूरत महसूस की गई (सारणी 1.1)। स्ट्रक्चरल मॉडलों के आद्यतन आकलन और सर्वेक्षणों से प्राप्त की गई जानकारियों तथा बाजार स्थित पैमाने यह दर्शाते हैं कि सीपीआई


चार्ट 1.3: कच्चे माल और विक्रय मूल्य की लागत का पूर्वानुमान



की दृष्टि से रियल इस्टेट कंपनियों के मंद निष्पादन में देखी गई मंदी का समर्थन नहीं करती। भारत में आँकड़ों का संशोधन और उसके बाद के प्रभाव कुछ अजीब नहीं हैं, लेकिन 2013-14 और 2014-15 के लिए पुरानी और नयी शूंखलाओं के बीच वास्तविक जीडीपी दरों के बीच के अंतराल की मात्रा से मौद्रिक नीति तय करने में जटिलता आयी है। निस्संदेह, जीडीपी के नये आँकड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बेहतर कवरेज तथा परिष्कृत प्रविधि प्रदान करते हैं। लेकिन अभी भी ये आँकड़े कारोबार चक्र की स्थिति तथा उपयुक्त मौद्रिक नीति के रूख के सही-सही आकलन को एक स्पष्ट स्वरूप नहीं दे पाते तथा कमजोर पूर्वानुमान प्रस्तुत करते हैं। नयी शूंखला पर आधारित पूर्वानुमान भी मॉडल बनाये जाने के लिए सहज अनुगामी पिछले आँकड़ों की दृष्टि से पर्याप्त इतिहास की कमी के कारण असमर्थ हैं।

2015-16 में सुधार के लिए निवेश प्रेरित संवृद्धि रणनीति को बढ़ावा देने वाली राजकोषीय नीति तथा निभाव के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग करते हुए बनायी गयी मौद्रिक नीति^० के साथ-साथ एक समष्टि आर्थिक परिवेश की अपेक्षा है। भारतीय विनिर्माण में कारोबार की परिस्थितियों का आकलन रिजर्व बैंक के बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इन्डेक्स (बीईआई), जो इसके इन्डस्ट्रियल आउटलुक सर्वे के आँकड़ों से विकसित किया गया है, दर्शाता है कि 2015-16

चार्ट 1.5: रिजर्व बैंक के कारोबार अपेक्षाओं का सूचकांक




^० इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अत्यधिक आवंटन करने के बावजूद, राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि, निजी क्षेत्र को पारदर्शी बोली के जरिए उर्वे देने से पहले सभी प्रकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पॉवर प्रॉजेक्ट स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव, भारत में कारोबार करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किए गए प्रयास और नीलामी के जरिए कोयला की उपलब्धता को सरल बनाने जैसी की गई अन्य पहल से निजी निवेश में बढ़ोत्तरी और समग्र निवेश माहौल बनाने में मदद मिलनी चाहिए।

सारणी I.2: कारोबार अपेक्षाओं का सर्वेक्षण

एनसीईआर कारोबार गोपनीय सूचकांक चौथी तिमाही: 2014-15	एफआईसीआई समग्र कारोबार गोपनीय सूचकांक फरवरी 2015	इयून एंड ब्रेड स्टैट कारोबार आशावादी सूचकांक 2015 की पहली तिमाही	सीआईआई कारोबार गोपनीय सूचकांक दूसरी तिमाही: 2014-15
सूचकांक का वर्तमान स्तर	148.4	70.5	129.4
पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार सूचकांक	142.5	70.4	137.6
एक वर्ष पूर्व का सूचकांक और अंतर (वर्ष-दर-वर्ष)	122.3 4.1	60.8 0.1	157.2 -6.0
परिवर्तन %	21.3	16.0	13.0

की पहली तिमाही में 2014-15 (सारणी 1.2) की दूसरी छमाही में हुए सुधार में कुछ धीमापन देखा जा सकता है (चार्ट 1.5)। इसे कुछ एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से समर्थन मिलता है (सारणी 1.2)। यद्यपि इनमें से अधिकांश सर्वेक्षण संघीय बजट प्रस्तुत किए जाने तथा 4 मार्च को मौद्रिक नीति के आने से पहले किए गए थे, फिर भी इस बात की पहचान किए जाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक कन्यूमर कन्फिडेन्स सर्वे (सीसीएस) जून 2014 से बढ़ते हुए उपभोक्ता आशावाद की ओर संकेत करता है, जिसमें आय, खर्च किए जाने की नयी संकल्पना और रोजगार वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट और निकटवर्ती सत्र के लिए मुद्रास्फीति के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण के साथ-साथ निम्नतर होती मुद्रास्फीति से बढ़ती हुई क्रय शक्ति की ज्ञालक मिलती है (चार्ट 1.6)।

चार्ट 1.6: रिजर्व बैंक के सूचकांक पर ग्राहक भरोसा



हालांकि, वृद्धि में गिरावट जोखिम है जिसके मूर्त रूप लेने से वृद्धि संभावनाएं अवरुद्ध हो सकती हैं। वैश्विक आर्थिक गतिविधि के पहले तेल की कीमतों में पुनः तेजी आने संबंधी यदा-कदा संकेतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमत चक्र में जारी गिरावट, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, बंद हो सकती है और इसमें पुनः तेजी आ सकती है। वस्तुतः अस्थिर भू-राजनीतिक परिवेश से रिवर्सल की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। परिणामी मुद्रास्फीति दबावों के उभरने से रिकवरी के लिए सृजित विकासशील परिस्थिति पर दबाव आ सकता है। कर में कमी, सब्सीडी अत्यधिक बढ़ जाने तथा विनिवेश से कम उगाही के कारण बजट पूर्वानुमान पर जोखिमों से पूंजीगत व्यय के लिए बजट आबंटन पर प्रभाव पड़ सकता है। एल नीनो घटना के कारण दक्षिण पश्चिम मॉनसून में 50 प्रतिशत की कमी की संभावना को देखते हुए कृषि की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अंततः सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के प्रतिशत के रूप में सकल बचत में कमी यदि मध्यावधि में जारी रहती है जैसा कि यह

2011-12 के 33 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 30 प्रतिशत हो गयी, तो समुचित रूप से उत्पादकता न बढ़ने से वृद्धि में वित्तीय कमी हो सकती है।

इन प्रगतिशील आकलनों तथा मॉडल आधारित पूर्वानुमानों, जिनमें ऑटोरिग्रेसिव इंटिग्रेटेड मूविंग एवरेज (एआरआईएमए) तथा बेजियॉन वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (बीवीएआर) शामिल है, को जोड़कर वृद्धि अनुमान क्रमिक तेजी की ओर इशारा करते हैं। व्यय पक्ष सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित सुदृढ़ अनुमान होने के कारण तथा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा आंकड़ों के समेकन में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य संकेतकों की बेहतर स्पष्टता के कारण तिमाही पूर्वानुमान आधार कीमत पर जोड़े गए सकल मूल्य से संबंधित है। इस बेसलाइन पूर्वानुमान के आस-पास जोखिमों के समान संतुलन के बीच वर्ष 2015-16 के लिए आधार कीमत पर जोड़े गए सकल मूल्य में 7.8% वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2014-15 के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अनुमान में

बॉक्स 1.2: तेल की कीमतों में गिरावट - संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर प्रभाव

भारत जैसे कच्चे तेल के बड़े आयातक के लिए जून 2014 से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट एक अनुकूल बाहरी प्रभाव है। सही मायने में, इसने संवृद्धि की संभावनाओं में सुधार करने तथा आगे मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने का काम किया है। कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव भारत में आर्थिक गतिविधियों तथा मुद्रास्फीति पर विभिन्न माध्यमों से पड़ा है : (i) उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक उच्च आय (ii) निम्नतर निविष्टि लागत जिससे कंपनियों की लाभप्रदता और निवेश को प्रेरित करने को बढ़ावा मिले (iii) निम्नतर चालू खाता घाटा (सीएडी); तथा (iv) बाजार का सुधरा हुआ रुख। इन अनुकूल प्रभावों ने कमजोर वैश्विक माँग से आई कमी को पूरा किया है।


भारत में एक साल से अधिक समय तक तेल की कीमतों में 50 यूएस डॉलर प्रति बैरल की गिरावट बने रहने के कारण कुल निजी उपभोक्ता माँग के 4 प्रतिशत तथा अभिहित मुद्रास्फीति के लगभग 2.9 प्रतिशत के बराबर उच्चतर वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है। यह मानते हुए कि पेट्रोलियम पदार्थों की घरेलू कीमतों 50 प्रतिशत तक जा सकती हैं, वास्तविक आय की वृद्धि सकल उपभोक्ता माँग को 2 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ा सकेगी और आउटपुट 1 प्रतिशत से अधिक होगा। भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र, खासकर गैर तेल उत्पादक फर्में (जैसे, सीमेट, इलेक्ट्रोसिटी, आयरन ऐंड स्टील, केमिकल्स, टेक्स्टाइल ऐंड ट्रांसपोर्टेशन) ईंधन, पैनल रिग्रेसनों के रूप में 5

प्रतिशत से ज्यादा अपनी कुल लागतों के साथ लाभप्रदता और तेल कीमतों के बीच के सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिकूल संबंध दर्शाती हैं।


मॉडल अनुमानों में यह सुझाया गया है कि तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत गिरावट के लिए (सीपीआई के निकटस्थ वैकल्पिक पूर्वानुमानों के अंतर्गत) आउटपुट वृद्धि में 0.1 से 0.3 प्रतिशत अंकों की सीमा में सुधार हो सकता है, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति में बेसलाइन से लगभग 20-25 बेसिस प्वाइंट्स तक की गिरावट आ सकती है। यद्यपि इसमें एक चेतावानी भी निहित है। इस अध्याय में जोखिमों के संतुलन के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए अनुमान विभिन्न मॉडलों में लिए गए विभिन्न आयामों के कारण तथा इनसे गुजरते हुए अनुमानों में अंतर होने के कारण भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कच्चे तेल की कीमतों में समग्र गिरावट के फायदे सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाये जाने के कारण पूरी तरह आम जनता तक नहीं जा सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि मॉडल आधारित पूर्वानुमान अपने सर्वोत्तम स्वरूप में भी पूरी तरह सही होने के बजाय केवल संकेतात्मक हो सकते हैं।

संदर्भ :

विश्व बैंक (2015) "ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेク्टस" जनवरी 2015.



संभावित संशोधन उक्त पूर्वानुमान के लिए एक मुख्य जोखिम है क्योंकि उक्त संशोधन कमी की ओर रहने की संभावना है (अध्याय III देखें) जिसके परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह बढ़ने की संभावना है (चार्ट 1.7)⁷। सहायक नीति परिदृश्य में क्रमिक चक्रीय वसूली को मानकर तथा नीतिगत कारणों से ढांचागत बदलाव या अन्य मुख्य आपूर्ति



⁷ आधार मूल्य पर जीवीए के लिए प्रस्तावित 7.8 प्रतिशत की तुलना में पुराने जीडीपी (कारक लागत पर) औंकड़ों का इस्तेमाल करके 2015-16 के लिए माडल - आधारित अनुमान से पता चलता है कि उत्पादन वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

आघात न होने पर वर्ष 2016-17 के लिए आधार कीमत पर जोड़े गए सकल मूल्य में 8.1 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि का पूर्वानुमान है। यदि सीएसओ द्वारा संशोधन कर वर्ष 2014-15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान घटा दी जाती है तो तदनुसार वक्र रेखा बदल जाएगी। रिजर्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण दर्शाता है कि 2015-16 के लिए औसत जीवीए वृद्धि 7.9 प्रतिशत होगी। (चार्ट 1.8 तथा सारणी 1.3)

सारणी 1.3: रिजर्व बैंक की बेसलाइन तथा पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का माध्यिका पूर्वानुमान


रिजर्व बैंक की बेसलाइन	2014-15	2015-16	2016-17
चौथी तिमाही में मुद्रास्फीटी (वर्ष-दर-वर्ष)	5.3	5.8	5.0
उत्पादन वृद्धि (प्रतिशत) - आधार कीमतों पर जीवीए	7.5	7.8	8.1
राजकोषीय घटा (जीडीपी का प्रतिशत)	4.1	3.9	3.5
चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	-1.3		

पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण का मूल्यांकन

मुख्य समष्टि आर्थिक संकेतक *	2014-15	2015-16
स्थिर कीमतों (2011-12) पर आधार कीमतों पर जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.5	7.9
कृषि तथा सहायक गतिविधियाँ	1.1	3.4
उद्योग	5.9	6.3
सेवाएँ	10.6	10.1
वर्तमान कीमतों (प्रतिशत) पर निजी अंतिम उपभोग व्यवहार वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.9	13.0
सकल बचत (सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का प्रतिशत)	30.0	31.0
सकल अचल पूँजी निर्माण (जीडीपी का प्रतिशत)	28.6	29.3
मुद्रा आपूर्ति (एम ₃) प्रतिशत में वृद्धि दर (समाप्त अवधि)	12.3	13.5
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक क्रेडिट (प्रतिशत में वृद्धि दर)	12.0	14.0
सम्मिलित सकल राजकोषीय घटा (जीडीपी का प्रतिशत)	6.5	6.3
केंद्र सरकार राजकोषीय घटा (जीडीपी का प्रतिशत)	4.1	3.9
रेपो दर (समाप्त अवधि)	7.50	7.00
सीआरआर (समाप्त अवधि)	4.00	4.00
राजकोष बिल 91 दिन प्रतिफल (समाप्त अवधि)	8.2	7.5
केंद्र सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियों पर परिपक्वता प्रतिफल (समाप्त अवधि)	7.8	7.3
समग्र भुगतान संतुलन (यूएस डॉलर बिलियन)	49.6	49.4
पण्य निर्यात (यूएस डॉलर बिलियन)	323.5	339.9
पण्य निर्यात (प्रतिशत में वृद्धि दर)	2.0	3.4
पण्य आयात (यूएस डॉलर बिलियन)	466.7	478.2
पण्य आयात (प्रतिशत में वृद्धि दर)	0.3	2.0
वर्तमान कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार संतुलन	-6.9	-6.3
निवल अदृश्य शेष (यूएस डॉलर बिलियन)	115.8	119.2
चालू खाता शेष (यूएस डॉलर बिलियन)	-25.0	-20.0
वर्तमान कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष	-1.2	-1.0
पूँजीगत खाता शेष (यूएस डॉलर बिलियन)	76.3	66.5
वर्तमान कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत खाता शेष	3.5	2.9


*: माध्यिक पूर्वानुमान

स्रोत: पेशेवर पूर्वानुमान के सर्वेक्षण का 33 वाँ दौर (मार्च 2015)



1.3 जोखिमों का संतुलन

वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए बेसलाइन मार्ग मुख्य धारणाओं के पूरा होने की शर्तों के अधीन है (सारणी 1.1)। संभावित जोखिम परिदृश्यों के अधीन विकसित होने वाली बेसलाइन के संबंध में संभावित मार्ग नीचे दिए गए हैं। (चार्ट 1.9 और 1.10)



(क) कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि

बेसलाइन अनुमानों में पूर्वानुमान सीमा के ऊपर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में क्रमिक वृद्धि का अनुमान है। हालांकि भू-राजनीतिक तनाव के मूर्त रूप लेने तथा अन्य आपूर्ति बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि का गंभीर जोखिम है। ऐसे आघात के कारण कच्चे तेल की कीमत में बेसलाइन के ऊपर प्रति बैरल 15-20 यूएस डॉलर वृद्धि हो जाने की स्थिति में 2015-16 के अंत तक मुद्रास्फीति 40-60 आधार अंक बढ़ जाने की संभावना है (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभावों के कारण)। अगले दो वर्षों तक वृद्धि में 10-30 आधार अंक की कमी आ सकती है क्योंकि कम वैश्विक मांग से प्लवन प्रभाव द्वारा उच्च निविष्टि लागत का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ सकता है।

(ख) 2015-16 में सामान्य से कम मानसून

बेसलाइन में सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के विपरीत 2015 में मानसून में कमी का जोखिम है। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी हो सकती है जिसके कारण 2015-16 में समग्र जीवीए वृद्धि में करीब 40 आधार अंकों की कमी आ सकती है। परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है जिससे 2015-16 में मुद्रास्फीति बेसलाइन से 80-100 आधार अंक बढ़ सकती है। मानसून के स्थानिक और अस्थायी फैलाव, खाद्य भंडार से संबंधित नीतियाँ, सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे घटकों से बारिश में कमी का प्रभाव कम या अधिक हो सकता है।

(ग) रुपये का अवमूल्यन

विनिमय दर में अनिश्चितता बरकरार है। मुख्य जोखिम यह है कि यू.एस फेड द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण करने से अमेरिकी राजकोषों में सुरक्षित पूँजी प्रवाह बढ़ेगा जिससे यू.एस डॉलर का मूल्य और बढ़ेगा। दूसरी तरफ, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अवस्फीति के जोखिम से और अधिक मौद्रिक निभाव की आवश्यकता होगी। विनिमय दर के वर्तमान स्तर की बेसलाइन अवधारणा से रुपये में लगभग 10 प्रतिशत के अवमूल्यन से 2015-16 में मुद्रास्फीति 20-30 आधार अंक बढ़ सकती है। बाद्य व्यापार शेष में सुधार के कारण 2015-16 में वृद्धि औसतन

10 आधार अंक बढ़ेगी जबकि बाह्य परिवेश में जोखिमों के मूर्त रूप लेने से वित्तीय स्थिति में मौद्रिक कसाव बढ़ने से 2016-17 में वृद्धि कुछ कमज़ोर पड़ सकती है।

(घ) खाद्य मुद्रास्फीति कम होना

जितनी संभावना जताई गई है उससे कम स्तर तक खाद्य मुद्रास्फीति पहुँच गई तो हेडलाइन मुद्रास्फीति बेसलाइन से कम हो सकती है। ऐसा सकारात्मक ढंग से आपूर्ति में अचानक कमी लाकर किया जा सकता है विशेषकर आपूर्ति शृंखला में सुधार, बाजार अवसंरचना में सुधार तथा कृषि में निवेश बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में 2015-16 के अंत तक हेडलाइन मुद्रास्फीति बेसलाइन से करीब 100 आधार अंक कम हो सकती है।

(ङ) कच्चे तेल की कीमतों में और कमी होना

स्थायी भू-राजनीतिक माहौल में अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति/ कम वैश्विक मांग के परिणामस्वरूप निकट समय में यदि कच्चे तेल की कीमतों में बेसलाइन से 15-20 यू.एस.डॉलर की कमी आती है तो 2015-16 के अंत तक मुद्रास्फीति बेसलाइन से 30-60 आधार अंक कम हो सकती है। गुजरते हुए विभिन्न परिदृश्य में आगले दो वर्षों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी से जीवीए वृद्धि बेसलाइन से 10-30 आधार अंक तक बढ़ सकती है।

(च) सीएसओ के जीडीपी अनुमान में संशोधन

2014-15 के लिए जीडीपी वृद्धि के पहले के अनुमान में काफी अनिश्चितता बनी हुई है तथा संशोधित अनुमानों में, जिसे मई 2015 के अंत तक जारी किया जा सकता है, चौथी तिमाही में वास्तविक अर्थिक गतिविधि से संबंधित जानकारी बेहतर ढंग से आने की उम्मीद है। यदि आगे जारी होने वाले अनुमानों में जीवीए वृद्धि (समान कीमत पर) के अनुमान में 50 आधार अंक की कमी की जाती है तो इससे मांग परिस्थिति का मूल्यांकन बदलेगा और मध्यम अवधि के लिए मुद्रास्फीति में 10-30 आधार अंकों की कमी आ सकती है।

(छ) निवेश मांग में तेजी

यदि 2015-16 के लिए केंद्रीय बजट में घोषणा किए गए निवेश व्यय में वृद्धि से निजी निवेश बढ़ता है और इसके परिणामस्वरूप यदि निवेश मांग बढ़ती है तो 2015-16 में जीडीपी वृद्धि बेसलाइन से 50 आधार अंक बढ़ सकती है। क्षमता वृद्धि के साथ लेकिन ऋणात्मक आउटपुट अंतराल से 2015-16 में मुद्रास्फीति पर उच्च निवेश मांग का प्रभाव कम होगा।

जोखिमों तथा अनुमानित बेसलाइन से मुद्रास्फीति और वृद्धि में संभावित विचलन के संतुलन में समय-पूर्व मार्गदर्शन की अपेक्षा होती है विशेषकर, उन परिस्थितियों में जिनमें ऐसे दिशानिर्देश जारी करने पड़ते हों (बॉक्स 1.3)।

बॉक्स 1.3: अनिश्चितता में समय-पूर्व मार्गदर्शन

वैश्विक संकट के बाद विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था दोनों में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति के संप्रेषण में समय-पूर्व मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर जीरो लोअर बाउंड से मुकाबला करने की सीमा होना। परंपरागत रूप से वैश्विक संकट के पहले समय-पूर्व मार्गदर्शन "पूर्वानुमान लेकिन कोई वादा नहीं" के रूप में होता था लेकिन जेडएलबी में यह एक मौद्रिक साधन बन गया। अत्यावधि ब्याज दरों के भावी मार्ग के संबंध में अपेक्षाओं द्वारा निवेश मांग की शर्त रखी जा सकती है। अतः जेडएलबी में समय-पूर्व मार्गदर्शन ने संभावित रूप से गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति के प्रभावों को आसान बनाता है।

सामान्य परिस्थितियों में मौद्रिक नीति के साधन के रूप में समय-पूर्व मार्गदर्शन का प्रयोग करने से जोखिमों और अनिश्चितताओं को समझने का दायित्व मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों पर आ जाता है जो बदले में "विश्वसनीयता" और "लचीलापन" में संतुलन का सामना करते हैं। संकट के बाद की अवधि में केंद्रीय बैंकों द्वारा समय-पूर्व मार्गदर्शन के चार विभिन्न प्रकारों का प्रयोग किया गया है- (क) बिना किसी स्पष्ट अंतिम तारीख, किसी लक्ष्य के अस्थिर न्यूनतम मूल्य या मुख्य मानदंडों के नीति के संभावित रूप पर गुणात्मक मार्गदर्शन; (ख) विशिष्ट अवस्था परिवर्तन के क्रमिक विकास से जुड़ा गुणात्मक

(जारी...)

मार्गदर्शन; (ग) कैलेंडर पर आधारित मार्गदर्शन जिसमें उस नीतिगत रुख के बने रहने की वास्तविक अवधि दी गई हो तथा (घ) अवस्था परिवर्तन के न्यूनतम मूल्य से जुड़ा परिणाम आधारित समय-पूर्व मार्गदर्शन। पहले दो प्रकार निरंतर स्वरूप की हैं जबकि तीसरा समय पर निर्भर है तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर है। समय तथा अवस्था पर निर्भर समय-पूर्व मार्गदर्शन अधिक निश्चितता प्रदान करता है लेकिन मजबूत प्रतिबद्धता से लचीलापन सीमित हो सकता है। जोखिम मूल्यांकन के संतुलन में अक्सर विशिष्ट पहचान योग्य जोखिमों को तथा उस तरीके को मानता है जिससे यह फैलता है। अप्रत्याशित जोखिमों तथा मॉडल त्रुटियों से मुद्रास्फीति की उत्पत्ति तथा वृद्धि मार्ग बेसलाइन या जोखिम परिदृश्यों से बिल्कुल अलग-अलग हो सकता है। वित्तीय बाजार में टकराव से जोखिम मूल्यांकन और अधिक जटिल हो सकता है। विशेषकर तब यदि उनकी स्पष्ट रूप से मॉडलिंग न की जाए या वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ उनकी डायनैमिक इंटरैक्शंस को मॉडलों में ठीक ढंग से शामिल न किया जाए। यदि समय-पूर्व मार्गदर्शन के अधीन प्रतिबद्धता में लाभों को नीतिगत रुख में परिवर्तन के लाभों के साथ-साथ आकलन करने पर यदि मार्गदर्शन के अनुरूप न हो तो कभी-कभी नीतिगत रुख में परिवर्तन के लाभों को वरीयता दी जाती है क्योंकि समय-पूर्व मार्गदर्शन देते समय घटनाक्रमों का

अनुमान लगाना कठिन था। इससे यह दृष्टिकोण बनता है कि समय-पूर्व मार्गदर्शन ही एक साधन है जिसे जेडएलबी दबाव के अधीन के लिए सुरक्षित रखना होगा। "नीति व्यावसायियों के लिए अनिश्चितता काल्पनिक नहीं है बल्कि दैनिक चिंता है। अनिश्चितता और नीतिगत त्रुटियों से केवल प्रत्याशित निर्णायक प्रक्रियाएं ही प्रोत्साहित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे अगर्व /विनम्रता के साथ यथार्थ अनुपयुक्त व्यवहार की तरह स्वीकार करना चाहिए।"

भारत में मुद्रास्फीति के जोखिमों तथा इसके स्रोतों के आस-पास बाजार प्रत्याशा के संबंध में मार्गदर्शन के लिए समय-पूर्व मार्गदर्शन का उपयोग किया गया है। समय के साथ-साथ आउटपुट अंतराल के अनुमान में व्याप्त अनिश्चितताओं के कारण, मुद्रास्फीति प्रक्रिया को तय वाले बाहरी तत्वों, वैश्विक प्लवन तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के स्वरूप, आकार और समय समय-पूर्व मार्गदर्शन में आवक डेटा की शर्त होनी चाहिए।

संदर्भ:

पॉलोज स्टैफन एस.(2014). "इन्टीग्रेटिंग अनस्टेनिटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी- मैकिंग: ए प्रेक्टिशनर्स पर्सप्रिक्टिव," बैंक ऑफ केनडा डिसक्शन पेपर 2014-6


वृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण की जानकारी अध्याय II से V में प्रस्तुत समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थितियों के आकलन द्वारा की जाती है। असंभावित आधातों को छोड़कर निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में मंदी बनी रह सकती है। राजकोषीय सुधार के इरादे और कमज़ोर ग्रामीण उपभोग मांग से मुद्रास्फीति के मांग पक्ष का जोखिम बना रह सकता है। टेपर टॉक के प्लवन प्रभाव के पिछले अनुभवों को

देखते हुए आपूर्ति पक्ष से वैश्विक वस्तु कीमतों की कमी, मानसून आने में बनी हुई अनिश्चितता तथा अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से संबद्ध पूंजी प्रवाह में अनिश्चितता से उत्पन्न विनिमय बाजार दबावों का सावधानीपूर्वक और सतत मॉनिटरिंग आवश्यक है। निवेश मांग की बहाली को समर्थन देने को उच्च महत्व देने के बावजूद मौद्रिक नीति के संचालन में आपूर्ति आधात को सहने की गुंजाइश सीमित है।

II.1. उपभोक्ता मूल्य


सितंबर 2014 के एमपीआर ने यह नोट किया था कि जनवरी 2014 में प्रारंभ हुए मौद्रिक नीति रूख के द्वारा मार्गदर्शित मुद्रास्फीति दबावों के घटाव 2014-15 के पहले छमाही में ही रुक गया। जबकि ईंधन मुद्रास्फीति और खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति स्थिर सामान्य दौर से गुजर रही थी, तब खाद्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीतियों के शीर्ष संभाले हुई थी जो मौसम प्रेरित अल्पायु लहर का अनुभव कर रही थी। हालांकि सितंबर 2014 मुद्रास्फीति 140 आधार अंक ढीला पड़ गया, सितंबर से नवबंर तक अवस्फीति ने गति पकड़ लिया और वैश्विक पण्य वस्तुओं की कीमत में बृहत्तर स्तर पर हुई गिरावट, घरेलू स्तर पर फलों और सब्जियों के कीमतों में कमी, अर्थव्यवस्था में जारी कम कामकाज और एक साल पहले उच्च मुद्रास्फीति के अनुकूल आधारभूत प्रभाव के संयुक्त प्रभाव से आरंभ में प्रत्याशित की तुलना में अधिक तेजी से बदल गया। (चार्ट II.1)

इस आधारभूत प्रभाव की भूमिका तुच्छ गैर साबित हुआ। जैसा कि नवबंर तक उसने तेजी से अवस्फीति को रूपांकित किया, अभी अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय जिंस कीमतों और सामान्य घरेलू खाद्य तथा निविष्टि कीमत के बावजूद दिसंबर से इसके उलटने से एक उछाल पैदा हुआ। शीर्ष मुद्रास्फीति में अनुक्रमिक परिवर्तन कीमतों में महीने दर महीने हो रहे बदलाव के संयुक्त प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है-जो कीमतों के रूपांकित होने और आधारभूत प्रभाव के तेजी को सूचित करता है। दिसंबर-फरवरी के दौरान शीर्ष मुद्रास्फीति की गति मंद




पड़ गई थी, ज्यादातर गैर-टिकाऊ वस्तुएं विशेषकर जल्दी खराब होनेवाली वस्तुओं की कीमतें (चार्ट II.2क), सूचकांक में सन्निहित माह-दर-माह कीमतों में बदलाव भी गति कमज़ोर होने की ओर इंगित करता है; मगर, सीपीआई के भीतर वस्तुओं पर व्यापक आधारित कीमत के दबाव जारी रहते हैं (चार्ट II.2ख)। आगे, अगस्त 2015 तक शीर्ष मुद्रास्फीति को आधारभूत प्रभाव नीचे खींचने की संभावना है (चार्ट II.3)।

चार्ट II.2: सीपीआई में माह-दर-माह परिवर्तन



नोट: कोष्ठक में दिए गए अंकों के कुल सीपीआई में भारण को सूचित करते हैं। 17-दिन और 30-दिन स्मरण संबंधी विवरण के लिए बॉक्स II.1 देखें।

*सूचकांक सन्निहित सीपीआई मुद्रास्फीति, कीमत बदलाव के बिखराव का माप, कहीं उनके कीमत बढ़ रहे हैं के अनुसार सीपीआई बास्कृट में श्रेणी संबंधित वस्तुएं। पिछले महीने के समान अथवा उससे नीचे गिरना। सन्निहित सूचकांक में 50 के ऊपर का रेखांकन यह सूचित करता है एक व्यापक विस्तार या कीमत वृद्धि के सामान्यकरण की सीमा और 50 के नीचे का रेखांकन सूचित करता है, व्यापक स्तर पर अवस्फीति।




II.2. मुद्रास्फीति के संचालक

2014-15 में शीर्ष मुद्रास्फीति के अंतर-वर्ष पथ ने पिछले वर्षों की तुलना में अधिक उत्तर चढ़ाव का प्रदर्शन किया विशेषकर उसके घटकों के योगदान को प्रतिबिंబित करते हैं। (चार्ट II.4) सीपीआई में अपने शेयरों से भारित खाद्य श्रेणी का योगदान बहुत बदलाव से गुजरी-2014-15 की पहली छमाही में शीर्ष मुद्रास्फीति के आधे से ज्यादा में चढ़ाव लेकिन फरवरी तक 60 प्रतिशत में बंद करने की ओर अग्रसर होने से पहले नवबंर में एक तिहाई गिर गई। इसके विपरीत,

खाद्य और ईंधन को छोड़कर श्रेणी का योगदान अपेक्षाकृत स्थिर रहा, हाल ही के महीनों में कुछ गिरावट के साथ।

खाद्य समूह के भीतर ही, विभिन्न संचालकों ने व्यक्तिगत तत्व चलाए (चार्ट II.5क) हैं। 2014-15² में अनाज के लिए मुद्रास्फीति में संयम का कारण एमएसपीयों में निम्न वृद्धि माना जा सकता है, गेहूँ का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) साथ ही खुले बाजार बिक्री के अधीन वर्द्धित आबंटन के रूप में सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन नीतियों को माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीपीआई के भीतर कब्जा




* शक्कर, अनाज, गैर नशीले पेय तथा तैयार खाना आदि. शामिल है।

² 2014-15 में विभिन्न उपजों के लिए न्यूनतम सहायक कीमते 0-5 प्रतिशत बढ़ाई गई थीं।

की गई पीडीएस वस्तुओं (चावल, गेहूँ और शकर) की कीमतों के सूचकांक सूचित करते हैं कि जहाँ इनके बाजारी मूल्य में वृद्धि हुई है वहाँ पीडीएस में इसके मूल्य काफी गिर गए हैं (चार्ट II.5ख)। सब्जियों और फलों के मामले में, एकत्रीकरण को हतोत्साहित करने के लिए अपनाई गई नीति कार्रवाई की प्रतिक्रिया के रूप में कीमतें उमीद से अधिक तेजी में गिर गई। चीनी की कीमतें वैश्विक कीमतों के अनुरूप संयमित रही। फिर भी प्रोटीन से भरे वस्तुओं (अंडा, मछली, मांस, दूध और दाल) की कीमतें मांग और आपूर्ति के बीच संरचनात्मक बेमेल को प्रतिबिंबित करते हुए नीचे कठोरता प्रदर्शित किया।

कोयला और कुकिंग गैस के प्रशासनिक कीमतों में संशोधन के अभाव में, वर्ष के दौरान ईंधन समूह मुद्रास्फीति में गिरावट आई लेकिन फरवरी में 4.7 प्रतिशत बढ़ी, प्रधान रूप से जलाऊ लकड़ी और बिजली के दाम बढ़ने के कारण मिट्टी का तेल और कुकिंग गैस जैसे अभी भी कम वसूली सामान इन मदों के प्रशासित मूल्यों के प्रति कम अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से प्रभावित हुए। अप्रैल-दिसम्बर 2014 के दौरान मिट्टी का तेल और कुकिंग गैस के संबंध में तेल मार्केटिंग कंपनियों की वसूली में हुई कमी ₹.562 बिलियन हो गई जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट होने के बावजूद आर्थिक सहायता के तहत संभावित व्यय बढ़ा।

चार्ट II.6: ईंधन मुद्रास्फीति और माह-दर-माह घट-बढ़





³ कृषि निर्माण बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम से फलों और सब्जियों को हटाना चाज और आलू को आवश्यक जिस अधिनियम के अधीन लाना, न्यूनतम निर्यात कीमतों को बढ़ाना और आयात के लिए संवर्धित

अर्थ व्यवस्था में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन से 2014-15 के दौरान खाद्य और तेल को छोड़कर मुद्रास्फीति कम होती हुई फरवरी में 4.1 प्रतिशत पहुंच गई (चार्ट II.7)। बॉक्स II.1 में निर्धारित प्रणालीबद्ध सुधार के कारण आवासीय मुद्रास्फीति (किराया) में पुराने सीरीस के मुकाबले नए सीरीस में गिरावट दिखाई दी। स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू सेवाएं जैसी सेवाओं के मूल्य संबंधी मुद्रास्फीति में हाल के महीनों में वेतव्यवृद्धि में गिरावट दर्शाते हुए सुधार देखने को मिला।

यातायात और संप्रेषण उप-समूह के लिए, अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट के प्रभाव स्वरूप जनवरी 2015 से अपस्फीति आरंभ हुआ जो इस उप-समूह में शामिल इंधनों की कीमतों को प्रभावित किया। जून 2014 और जनवरी 2015 के बीच, क्रूड ऑयल के मूल्य (इंडियन बास्केट, रूपए में) 55 प्रतिशत गिर गए जिसमें 90% गिरावट अक्तूबर से जनवरी के बीच हुई। प्रतिक्रिया स्वरूप, पेट्रोल का खुदरा मूल्य कम हुआ। दूसरी तरफ जहाँ डीजल के मूल्य को ओएमसी की कम वसूली की भरपाई के लिए अगस्त तक कदम-दर-कदम बढ़ाया जा रहा था, उसके बाद अक्तूबर से जनवरी के दौरान कम हुआ (चार्ट II.8)। तथापि, पेट्रोल के दाम में कुल ₹.7.75/- और डीजल के दाम में कुल ₹.6.50/- का उत्पाद शुल्क लगाए जाने से अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दामों में हुई गिरावट के मुकाबले देशी पम्प मूल्यों में हुई कमी बहुत कम

चार्ट II.7: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई





है। पहले उल्लिखित भूराजनीतिक और अन्य ग्लोबल वितरण गतिविधियों के अनुरूप फरवरी-मार्च के दौरान ग्लोबल कूड़ ऑयल दाम अस्थिर रहे।

मुद्रास्फीति के अन्य माप

पिछली एमपीआर तक मुद्रास्फीति के सभी उपाय सामान्यतः सीपीआई शीर्षक के सहचारी थे। तथापि, फरवरी 2015 को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार मुद्रास्फीति में 2.1 प्रतिशत की कमी अत्यंत उल्लेखनीय है (तालिका II.1)।

सारणी II.1 : मुद्रास्फीति के माप
(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)


तिमाही/माह	जीडीपी अपस्फीति-कारक	डब्ल्यूपीआई	सीपीआई	सीपीआई-आईडब्ल्यू	सीपीआई-एएल	सीपीआई-आरएल
तिमाही 1: 2013-14	5.3	4.8	9.5	10.7	12.6	12.4
तिमाही 2: 2013-14	6.7	6.6	9.7	10.8	12.9	12.7
तिमाही 3: 2013-14	7.9	7.1	10.4	10.6	12.4	12.3
तिमाही 4: 2013-14	5.1	5.4	8.2	6.9	8.5	8.7
तिमाही 1: 2014-15	5.9	5.8	7.8	6.9	8.1	8.3
तिमाही 2: 2014-15	4.3	3.9	6.7	6.8	7.3	7.6
तिमाही 3: 2014-15	1.4	0.3	4.1	5.0	5.4	5.7
जून-15	--	-0.4	5.2	7.2	6.2	6.5
फर-15	--	-2.1	5.4	6.3	6.1	6.2

आईडब्ल्यू: औद्योगिक श्रमिक, एएल: कृषि श्रमिक और आरएल: ग्रामीण श्रमिक

II.3 लागत

सितम्बर 2014 के एमपीआर से भारतीय अर्थव्यवस्था में लागत को बढ़ानेवाले घटक उल्लेखनीय रूप से कम हुए हैं। जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, पण्य वस्तुओं के आयात से संबंधित बाहरी लागत की स्थिति, विशेषकर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, बड़े पैमाने में कम हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रतिफलन थोक मूल्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक होने में दिखाई दिया। घरेलू रूप से भी जून से लागत दबावों के कारक भी लगातार कम हो रहे हैं। तथापि, अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण में अवरोध की मौजूदगी इन गतिविधियों में आउटपुट मूल्य को पूरी प्रतिक्रिया दे रही है।

2014-15 की तीसरी तिमाही से दोनों खेती और औद्योगिक क्षेत्र के इन्पुट लागतों को शामिल किया गया है (चार्ट II.9)। भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण में भाग ले रहे निर्माण फर्म भी जनवरी - मार्च 2010 राउंड (सारणी II.2) से न्यूनतम लागत दबावों के चलते कच्चे मालों की लागत में गिरावट दर्शाई है। दोनों निर्माण और सेवाओं के लिए खरीदार प्रबंधकों के सर्वेक्षण ने भी इन मूल्यांकनों का समर्थन किया है - इनपुट और आउटपुट मूल्यों के बीच अंतर कम होना कमज़ोर प्राइसिंग पावर का लक्षण है।




सारणी II.2: निवेश लागत तथा बिक्री मूल्य
(निवल प्रतिक्रिया प्रतिशत में)

	कुल प्रतिक्रिया (संख्या)	कच्चे माल की लागत	बिक्री मूल्य
जन-मार्च 13	1301	-53.5	9.1
अप्रैल-जून 13	1321	-49.9	7.3
जुलाई-सितं 13	1207	-62.2	11.3
अक्टू-दिसं 13	1223	-55.3	7.8
जन-मार्च 14	1114	-54.1	9.6
अप्रैल-जून 14	1293	-49.5	9.8
जुलाई-सितं 14	1225	-44.7	6.8
अक्टू-दिसं 14	2083	-41.5	5.9
जन-मार्च 15	1533	-32.8	2.6

स्रोत: औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण, भारिंडै

हाल के वर्षों में अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी वृद्धि, जो लागत को निर्धारित करनेवाला मुख्य घटक है, उच्च स्तर से ही सही कम हुई है। ग्रामीण मजदूरी वृद्धि में हुई कमी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रमिक ब्यूरो ने कुछ नए रोजगार को शामिल करते हुए वर्तमान रोजगार का पुनःवर्गीकरण करने के अलावा नवम्बर 2013 में ग्रामीण वेतन संबंधी डाटा को संशोधित किया। यह अनुमान लगाया कि जनवरी 2015 में पुरुष मजदूरों के लिए सभी प्रकार के रोजगार (कृषि और गैर-कृषि) के लिए ग्रामीण मजदूरी में औसतन वार्षिक वृद्धि 5.5% थी जो पुराने सीरीस (चार्ट II.10) में रिपोर्ट किए गए छह वर्ष (2007-13) के दौरान 15 प्रतिशत की वार्षिक औसतन वृद्धि से काफी कम है। मजदूरी वृद्धि में गिरावट स्पष्ट रूप से अकुशल मजदूरों के मामले में स्पष्ट दिखाई दी अनुमानतः कम-मजदूरी राज्यों की पकड़ और ग्रामीण



**चार्ट II.10: ग्रामीण वेतन
(सभी व्यवसायियों में पुरुषोंका औसतन)**



मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट के कारण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत पब्लिक योजनाओं में रोजगार से संबंधित उत्पादक आस्ति सृजन की आवश्यकता भी महसूस की गई। ये गतिविधियां इशारा करती हैं कि उत्पादकता में आनुपातिक सुधार के बिना उच्च वास्तविक वेतन वृद्धि स्थाई नहीं है।

2013 से संयमित करने के बाद समीपकाल में निर्माण और सेवा क्षेत्र में इकाई मजदूरी लागतों में सुधार हुआ है (चार्ट II.11क)। कुल

चार्ट II.11: विनिर्माण और सेवाओं में श्रमिक लागत



नोट: प्रति कर्मचारी लागत= कुल कर्मचारियों का व्यय/कुल कर्मचारियों की संख्या। 2014-15 की पहली तिमाही से प्रति कर्मचारी की लागत मार्च 2014 तक के कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर प्राप्त किया गया है।

स्रोत: कैपिटालाइन डेटाबेस।

⁴ उत्पाद मूल्य की तुलना में स्टाफ लागत अनुपात द्वारा मापा गया है।

आउटपुट में विशेषकर निर्माण क्षेत्र में मजदूरी लागत के योगदान में भी वृद्धि हुई है (चार्ट II.11ख) ।

कुल वितरण की स्थिति

अनुभव आधारित विश्लेषण के परिणामों के साथ तुलना करते हुए अर्थव्यवस्था में मूल्य/लागत स्थिति का मूल्यांकन कुल आपूर्ति की स्थिति में उपयोगी परिज्ञान प्रदान करता है । मार्जिनल लागत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में समय के अनुसार मूल्य निर्धारित करने के फर्म की प्रवृत्ति; मूल्य निर्धारण की प्रकृति, पीछे देखकर आगे चलना या ओर लचीला; मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं तैयार करने के तरीके; और यादृश्क आपूर्ति छटके सहित कुल आपूर्ति के व्यवहार निर्धारित करनेवाले कई तत्व हैं । तकनीकी शब्दों में, जहां मूल्य निर्धारित करनेवाली प्रवृत्तियां कुल आपूर्ति में गिरावट निर्धारित करती हैं, मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं तैयार करना और आपूर्ति छटके संबंधी घटनाएं कुल आपूर्ति में वृद्धि ला सकती हैं ।

अपरिचित क्षेत्रों में मुद्रास्फीति गतिविज्ञान का शामिल होने के बावजूद अनुभव यह है कि हाल के वर्षों में कुल आपूर्ति की प्रवृत्ति बदल रही है । फर्मों के मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति अब पहले की तरह पीछे देखकर आगे चलनेवाली नहीं रही, साथ ही मांग और आपूर्ति छटकों के प्रति मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया कम हुई है । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माने जाने लगा कि कुल आपूर्ति वक्रता कम हुई है और मूल्य छटकों के प्रति कम संवेदनशील होनेवाला है । मौद्रिक नीति तैयार करने के

परिदृश्य में तात्पर्य यह है कि मुद्रास्फीति राशि को बनाए रखने के लिए आउटपुट का परित्याग करने से अवस्फीति का प्रत्येक यूनिट भारी पड़ेगा ।

भारतीय परिदृश्य में उपलब्ध अनुभवी सबूत यह सुझाव करता है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ व्यापक रूप से अनुकूल बनते हुए वैश्विक संकट पश्चात अवधि के दौरान कुल आपूर्ति की प्रवृत्तियां परिवर्तित हुई हैं । विशेष रूप से मार्जिनल लागत में परिवर्तन के प्रति खुदरा मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया कम हुई है । इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सबूतों की तुलना में परित्याग अनुपात स्पष्ट रूप से बढ़ा है । मौद्रिक नीति की दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि आगे चलते कम किए गए मुद्रास्फीति की हर यूनिट पूर्वनिश्चित आउटपुट को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था की स्थिति विकल्प पर निर्भर होनेवाला है । हर अंधकार में उम्मीद की रोशनी छिपी रहती है; रुकी हुई निवेश पर कार्य करना, बिजली, भूमि, आधारभूत संरचना और मानव कुशलता जैसे प्रमुख घटकों की उपलब्धता में अंतर मिटाना, उत्पादकता और क्षमता के पुनर्निर्माण वितरण प्रतिक्रिया में सुधार लाएगा और वर्तमान अवस्फीति को जारी रखेगा । इस परिदृश्य में मौद्रिक नीति हस्तक्षेप करनेवाले की भूमिका से ज्यादा परिचालक के रूप में उभरकर आता है क्योंकि उसका प्राथमिक लक्ष्य मूल्य स्थिरता है । अंत में, छटकों के संबंध में, विनिमय दर पास थूं उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है । दूसरी तरफ, घरेलू छटके जैसे मानसून में कमी, खुदरा मुद्रास्फीति में गहरी छाप छोड़ता है और मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को ओर बढ़ाता है ।

⁵ एंजिलोनी आई.जे. गेली.एल.एयूक्रेमानी,ए.लेवीन.एम.एहरमान एंड एफ.स्मेट्स(2006),"न्यू एवीडेन्स ऑन इनफ्लेक्शन परसीस्टन्स एंड प्राइस स्टिकीनेस इन द यूरो एरिया: इम्प्लिकेशन्स फॉर मैक्रो मॉटेलिंग" जर्नल ऑफ द यूरोपीयन इक्नोमिक एसोसिएशन,खंड.4(2-3).पीपी.562-574

⁶ मिशकीन,एफ.एस.(2007),"इनफ्लेक्शन डायनामिक" इंटरनैशनल फाइनैंस,खंड.10(3),पीपी 317-334 और राजीन.ए.एंड बिनयमिनी(2007)"फ्लैटन इनफ्लैक्शन- आउटपुट ट्रेड-ऑफ एंड एनहेन्सड एन्टी-इनफ्लेक्शन पॉलिसी:आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन?",एनबीईआर वर्किंग पेपर सं. 13280

⁷ त्याग अनुपात को संचयी उत्पादन हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है- कि किसी अर्थव्यवस्था को स्थाई आधार पर एक प्रतिशत अंक की औसत मुद्रा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए।

⁸ विनिमय दर में एक ईकाई बदलाव को घरेलू मूल्यों की अनुक्रियाशीलता की मात्रा के अनुसार विनिमय दर पास-थूं को परिभाषित किया जाता है।

III. मांग और आउटपुट

विनिर्माण और सेवा में गति आने से प्रोत्साहित घरेलू आर्थिक गतिविधि 2014-15 में मजबूत हुई। यद्यपि, आर्थिक गतिविधि के स्पष्ट ब्रेक-आउट पर निर्णायक साक्ष्य कम ही उपलब्ध हैं। मुख्य समस्ति आर्थिक संकेतक, जो अग्रणी और समकालीन हैं, के अनुसार अर्थव्यवस्था में विचारणीय काफी शिथिलता है।

राष्ट्रीय खातों पर सीएसओ द्वारा किए गए हाल के अद्यतन यह दर्शाते हैं कि जो आर्थिक गतिविधि 2013-14 में शुरू हुई थी को 2014-15 के दूसरी छमाही में और गति मिली। हालांकि इस आकलन पर पर्याप्त जन संवीक्षा और तर्क किए गए, फिर भी एक सकारात्मकता यह है कि आर्थिक चक्र में एक मोड़ आ रहा है। चूंकि समस्ति अर्थशास्त्र और राजनीतिक स्थिरता के परिवेश में मुद्रास्फीति वापस आ रही है, मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे अंक तक बढ़ने की संभावना प्रबल हो रही है। चारों ओर फैले वृद्धि के प्रभाव से आपूर्ति दबाव, बंद परियोजना में अटके निवेश और विद्युत, भूमि, अवसरंचना और मानव कौशल विनिर्माण जैसे मूल निवेश की उपलब्धता में कमी की कठिन समस्या निश्चित रूप से सुलझ रही है। निवेशक - अनुकूल कर प्रस्तावों, लोगों के व्यय का अनुदान से निवेश में योजनाबद्ध रूप से अंतरित होना जो सरकारी उद्यमों में इकट्ठा हो रहा है,

सरंचनागत सुधार और 2015-16 के संघ बजट में घोषित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को जारी रखने के लक्ष्य भी कारोबारी उद्देश्यों को सीमित कर रहे हैं।

III.1 कुल मांग

सीएसओ का अग्रिम अनुमान दर्शाता है कि वास्तविक जीडीपी (बाजार मूल्य) की वृद्धि एक साल पहले के 6.9 से 2014-15 में 7.4 प्रतिशत पहुँच गई है (टेबल III.1) यद्यपि 2014-15 की चौथी तिमाही के लिए सरकारी डेटा केवल मई 2015 तक उपलब्ध होगा, तथापि पूरे वर्ष के लिए अग्रिम आकलन में यह निर्विवाद है कि वर्ष की अंतिम तिमाही में वृद्धि की गति बढ़ जाती है।

गतिविधि की गति बढ़ने से अनुमान है कि निजी अंतिम खपत व्यय का भारित अंशदान 2013-14 के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 4.1 हो जाएगा। यद्यपि तिमाही डेटा बताते हैं कि 2014-15 की तीसरी तिमाही में निजी अंतिम खपत व्यय की वृद्धि काफी कम हो गई है और पूरे वर्ष के 7.1 प्रतिशत के अग्रिम अनुमान तक पहुँचने के लिए चौथी तिमाही में इसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने की जरूरत है। तथापि खपत के समकालीन और प्रमुख संकेतक बतलाते हैं कि निजी खपत मांग की नजाकत बनी हुई है। ग्रामीण मांग के संकेतक यथा ट्रैक्टर और

सारणी III.1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि (बेस: 2011-12)


(प्रतिशत)

मद	वृद्धि में भारित योगदान (प्रतिशत अंक)		2013-14	2014-15 (एई)	2013-14				2014-15		
	2013-14*	2014-15* (एई)			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
I. निजी अंतिम खपत व्यय	3.6	4.1	6.2	7.1	7.7	5.6	4.6	7.0	4.3	8.7	3.5
II. सरकारी अंतिम खपत व्यय	0.9	1.1	8.2	10.0	27.3	5.3	11.0	-7.2	-2.0	5.8	31.7
III. सकल स्थिर पूँजी विनिर्माण	0.9	1.3	3.0	4.1	2.3	6.3	5.3	-1.4	7.7	2.8	1.6
IV. निवल नियात	4.4	0.4	69.0	19.5	25.6	55.8	90.0	91.0	68.7	-79.0	-115.4
(i) नियात	1.8	0.2	7.3	0.9	2.6	-1.6	15.7	14.1	9.3	-3.8	-2.8
(ii) आयात	-2.6	-0.1	-8.4	-0.5	-3.5	-8.4	-14.2	-7.0	-3.6	1.2	1.1
V. बाजार मूल्य पर जीडीपी	6.9	7.4	6.9	7.4	7.0	7.5	6.4	6.7	6.5	8.2	7.5

नोट: एई: अग्रिम अनुमान। * स्टॉक में परिवर्तन के कारण टेबल में घटकवार योगदान जीडीपी वृद्धि में शामिल नहीं किया गया है। मूल्यवान वस्तुएं और विसंगतियों को यहाँ शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत: केंद्रीय आंकड़ा कार्यालय

चार्ट III.1: मांग शर्ते



दो पहिया वाहनों की बिक्री बतलाते हैं कि ये कमजोर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानसून की कमी और ग्रामीण मजदूरी में गिरावट से ग्रामीण आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खपत मांग में आई समग्र कमजोरी को उपभोक्ता माल के घटते उत्पादन और कारपोरेट बिक्री वृद्धि में आए उल्लेखनीय गिरावट में भी देखा जा सकता है (चार्ट III.1)।

अग्रिम अनुमान के अनुसार 2014-15 में सरकारी अंतिम खपत व्यय (जिसमें केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों और स्वायत्तशासी निकायों के खपत व्यय शामिल हैं) में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जिसका कारण मुख्यतः राज्यों¹ द्वारा तेजी से बढ़ता व्यय है। हालांकि केंद्र के कुल व्यय में बढ़ोत्तरी संयमित है। अनुदान पर व्यय की बढ़ोत्तरी को योजना राजस्व व्यय और संकलित पूंजी व्यय में कटौती कर समायोजित किया गया ताकि बजटीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। क्रृष्णतर पूंजीगत प्राप्तियों में कमी और अप्रत्यक्ष कर की कम वसूली के कारण विविध श्रेणी के व्यय के संबंध में मितव्ययिता की आवश्यकता है तथापि लाभांश और लाभ अधिक प्राप्त होने के कारण कर-रहित राजस्व बजटीय लक्ष्य से बढ़ गया है (टेबल III.2)। 2014-15 में विनिवेश प्राप्ति बजटीय राशि के आधे से भी कम था।

समेकित वृद्धि को प्रोत्साहित करने और संघ के राजकोष को मजबूत करने के दो लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संघ बजट 2015-16 में बुनियादी कार्य के लिए अधिक आबंटन किया गया है और राज्य को अंतरित संसाधनों के लिए उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की गई है। इस कारण 2015-16 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य भटक गया और सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के लिए जीडीपी के अनुपात में 3 प्रतिशत लक्ष्य के साथ अभिसारण

सारणी III.2: मुख्य राजकोषीय संकेतक केंद्र सरकार के वित्त

संकेतक	जीडीपी के अनुपात		
	2014-15 (बोर्ड)	2014-15 (आरई)	2015-16 (बोर्ड)
1. राजस्व प्राप्तियां	9.2	8.9	8.1
क. कर राजस्व (निवल)	7.6	7.2	6.5
ख. कर-रहित भुगतान	1.7	1.7	1.6
2. कुल प्राप्तियां	13.9	13.3	12.6
3. योजनेतर व्यय	9.5	9.6	9.3
क. राजस्व खाते पर	8.7	8.9	8.5
ख. पूंजी खाते पर	0.8	0.7	0.8
4. योजना व्यय	4.5	3.7	3.3
क. राजस्व खाते पर	3.5	2.9	2.3
ख. पूंजी खाते पर	0.9	0.8	1.0
5. कुल व्यय	13.9	13.3	12.6
6. राजकोषीय घाटा	4.1	4.1	3.9
7. राजस्व घाटा	2.9	2.9	2.8
8. प्राथमिक घाटा	0.8	0.8	0.7


बोर्ड: बजट अनुमान

आरई: संशोधित अनुमान

स्रोत: संघ बजट, 2015-16

¹ 2014-15 (बजट अनुमान) में समेकित स्तर पर राज्यों के राजस्व व्यय की वृद्धि में 20.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई।

चार्ट III.2: निवेश मांग संबंधी संकेतक



अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई। 2015-16 में जीएफडी में बजटीय कटौती योजना राजस्व व्यय में दबाव और ऋण-तर पूँजी राजस्व में बढ़त दर्शाता है।


सीएसओ का अग्रिम आकलन जिसके अनुसार 2014-15 में सकल स्थिर पूँजी विनिर्माण की वृद्धि में क्रमशः बढ़ोत्तरी होगी, उसके तिमाही आकलन जो दूसरी और तीसरी तिमाही (टेबल III.2) में गिरावट दर्शाता है, को समर्थन नहीं देता है। हालांकि पूँजीगत माल के उत्पादन और तेल और सोने से इतर वस्तुओं के आयात में चौथी तिमाही में कुछ गति आई, अर्थव्यवस्था में बड़े निवेश समर्थन की जरूरत है ताकि आपूर्ति दबाव, अटके हुए निवेश, दबावग्रस्त बैंक तुलनपत्र, जोखिम विमुखता और कमज़ोर मांग के कुचक्र को तोड़ा जा सके (चार्ट III.2)। तथापि तात्कालिक


परियोजना मंजूरी पर प्रगति अभी कार्यान्वित होनी बाकी है (चार्ट III.3)।

अर्थव्यवस्था में पिछले दो वर्षों में सकल घरेलू बचत दर में तेजी से गिरावट आई है। यह गिरावट घरेलू क्षेत्र खासकर विनिर्माण क्षेत्र द्वारा भौतिक आस्तियों में कम बचत करने के कारण आई है (चार्ट III.4)।



सकल जीडीपी वृद्धि में कुल निर्यात दूसरी तिमाही से नकारात्मक हो गया है जिसका कारण निर्यात में कमी आना और आयात बढ़ना है। तीसरी तिमाही में कमज़ोर वैश्विक मांग और कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में तेजी से आई गिरावट ने पेट्रोलियम उत्पादों (पीओएल) के निर्यात (जो कुल पण्य निर्यात का लगभग

चार्ट III.3: विलंबित और अवरुद्ध परियोजनाएं



III.4: बचत और निवेश दरें

19 प्रतिशत है) को प्रभावित किया। तेल से इतर वस्तुओं का निर्यात भी कुल संकुचन में भागीदार बना क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पण्य के मूल्य में गिरावट के साथ प्राय मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई (चार्ट III.5)। आयात के धीमी गति से बढ़ने के साथ 2014-15 की तीसरी तिमाही में व्यापार घाटा बढ़ गया, यद्यपि कुल सेवा निर्यात में सुधार के कारण इसमें कुछ हद तक समायोजन हुआ (चार्ट III.6)। जनवरी और फरवरी 2015 के दौरान निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से आई गिरावट ने व्यापार घाटा को काफी बढ़ा दिया। हालांकि जनवरी 2015 में निवल सेवा निर्यात पिछले महीने और साथ ही एक वर्ष पूर्व से कम था।



सारणी III.3: बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक

संकेतक	अंत-मार्च 2001	अंत-मार्च 2006	अंत-मार्च 2011	अंत-मार्च 2012	अंत-मार्च 2013	अंत-मार्च 2014	अंत-दिसं 2014
1.जीडीपी अनुपात (%) में बाह्य कर्ज	22.5	16.8	18.2	20.9	22.3	23.7	23.2
2.कुल कर्ज (मूल परिपक्वता) (%) में अल्पावधि का अनुपात	3.6	14	20.4	21.7	23.6	20.5	18.5
3. कुल कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) (%) में अल्पावधि का अनुपात	10.3	18.3	40.6	40.9	42.1	39.6	3.न.
4. कुल कर्ज (%) में रियायती कर्ज का अनुपात	35.4	28.4	14.9	13.3	11.1	10.4	9.2
5.कुल कर्ज (%) में आरक्षित निधियों का अनुपात	41.7	109	95.9	81.6	71.3	68.1	69.4
6. आरक्षित निधियों में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	8.6	12.9	21.3	26.6	33.1	30.1	26.7
7. आरक्षित निधियों में अल्पावधि कर्ज का अनुपात (अवशिष्ट परिपक्वता) (%)	24.6	16.8	42.3	50.1	59	57.4	3.न.
8. आयातों का आरक्षित कवर (महीनों में)	8.8	11.6	9.5	7.1	7.0	7.8	8.1
9. डेब्ट सेवा अनुपात (चालू रसीद में डेब्ट सेवा भुगतान) (%)	16.6	10.1	4.4	6	5.9	5.9	8.6
10. बाह्य डेब्ट (अमेरिकी बिलियन)	101.3	139.1	317.9	360.8	409.4	446.5	461.9
11. निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (अमेरिकी बिलियन)	-76.2	-60	-207.0	-264.7	-326.7	-337.0	-356.5
12 एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात ^a (%)	-16.5	-7.2	-12.1	-14.4	-17.7	-17.9	-17.6
13.सीएडी/जीडीपी अनुपात	0.6	1.2	2.8	4.2	4.8	1.7	1.7

उपलब्ध नहीं। *अमेरिकी डॉलर के अनुसार आधारित गणना।

देखी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी के साथ-साथ डेब्ट निवेश में तेजी देखी गई। इसप्रकार जनवरी 2015 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जो पिछली तिमाही के मासिक औसत से दुगुना है। बाहरी वित्तपोषण जरूरतों की तुलना में निवल पूँजी प्रवाह बहुत अधिक होने के कारण 03 अप्रैल 2015 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 343.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊंचे स्तर तक पहुंच गई।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि पर्याप्तता के पारंपरिक मात्रिक (मैट्रिक्स) के अनुसार, आयात कवर और अल्पावधि ऋण कवर के लिए ग्रिनस्पान गुर्डोटी नियम भारत ने लगातार सुधार किया है। आरक्षित निधि के आयात कवर मार्च 2014 महीने के अंत के 7.8 की तुलना में दिसम्बर 2014 के अंत में 8.1 तक पहुंच गया जबकि आरक्षित निधि में अल्पावधि ऋण के अनुपात में मार्च 2014 के अंत

के 30.1 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर 2014 के अंत में 26.7 प्रतिशत (सारणी III.3) का सुधार हुआ। आगे, 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल वायदा खरीद और जापान के साथ तथा ब्रिक्स (BRICS) के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था ने बाहरी आघात के खिलाफ अतिरिक्त कवर उपलब्ध कराया।

III.2 आउटपुट

यूनाइटेड नेशन्स सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स (एसएनए 2008) के संदर्भ में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उत्कृष्ट मानकों के साथ है और इसमें बेहतर डेटा कवरेज है। यद्यपि बेस कीमत पर सकल मूल्ययोजित (जीवीए) द्वारा मापित उत्पादन के विभिन्न मैट्रिक्स के साथ विसंगति का पता चलना या तो इसके अनुरूप है या स्तर और

बॉक्स III.1 : राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला


राष्ट्रीय सांख्यिकी कमीशन (एनएससी) ने अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव के लिए प्रत्येक पांच साल में सभी प्रमुख आर्थिक आंकड़े के लिए अधार वर्ष में बदलाव के लिए सिफारिश किया है। इस सिफारिश के अनुसरण में भारत में राष्ट्रीय लेखा के लिए हाल में 2011-12 (पहले 2004-05 से) को बेस वर्ष के रूप में संशोधित किया गया है क्योंकि 2009-10 को वैश्विक वित्तीय संकट की दृष्टि से सामान्य वर्ष के रूप में विचार नहीं किया गया है। नई श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय

व्यवहार के अनुसार आर्थिक गतिविधि के मापदण्ड के रूप में सकल देशी उत्पाद के लिए उपादान लागत की बजाय बाजार कीमत पर हेडलाइन संख्या को रिपोर्ट की जाती है। आगे, इसके अलावा आपूर्ति के संदर्भ में गतिविधि के लिए उपादान लागत पर जीडीपी की बजाय बेस कीमत पर सकल मूल्ययोजित- हेडलाइन मापदण्ड है। ई-प्रशासन पहल यथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की एमसीए-21, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों में बेहतर कवरेज तथा हाल के

(जारी...)

राष्ट्रीय नमूना पर्यवेक्षण (एनएसएस) के निगमीकरण, में उपलब्ध डेटाबेस के अनुसार नई श्रृंखला में दूसरे बदलाव, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्माण और सेवा, दोनों में कॉरपोरेट क्षेत्र का व्यापक कवरेज शामिल है।

इन परिवर्तनों के फलस्वरूप नए बेस पर जीडीपी के संकेतिक स्तर पुराने बेस की तुलना में कम है। नए बेस पर दोनों संकेतिक और रियल जीडीपी का विकास दर प्रत्येक वर्ष के लिए उच्च है। उत्पादकता के लिए प्रयुक्त आम संकेतकों - वृद्धिशील पूँजी उत्पाद अनुपात (आईसीओआर) के अनुसार नई श्रृंखला काफी सुधार दर्शाता है, परंतु अन्य संकेतकों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। विशेष रूप से ऐसे वातावरण में जिसकी विशेषता कम होती राष्ट्रीय बचत, निवेश हो और रुके हुए प्रोजेक्टों पर आम चिंताएं हों (चार्ट ए)।



विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए संवृद्धि पुरानी श्रृंखला की तुलना में नई श्रृंखला में काफी अधिक है। इस क्षेत्र की संवृद्धि असंगठित क्षेत्र से संचालित हुई प्रतीत होती है जिसमें 2012-13 में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि बाद के वर्षों के आंकड़े असंगठित क्षेत्र में मंदी दर्शाते हैं। इस समय विनिर्माण विकास मुख्यतः संगठित क्षेत्र के कारण रहा (टेबल 111.बी.1)। जहां एमसीए-21 डेटाबेस का प्रयोग 2013-14 तक के भिन्नता को दर्शाता है, 2014-15 के लिए अग्रिम आकलनों में जीडीपी के चार घटकों, यथा निर्माण, व्यापार, हॉटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट में भारतीय रिजर्व बैंक


सारणी III.बी.1: विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि

की वर्ष दर वर्ष वृद्धि	2012-13	2013-14	2014-15
स्थिर कीमतों पर जीवीए (आधार 2004-05)	1.1	-0.7	उ.न.
आईआईपी	1.3	-0.8	1.7*
स्थिर कीमतों पर जीवीए (आधार 2011-12)	6.2	5.3	6.8
संगठित क्षेत्र	2.5	6.8	उ.न.
असंगठित क्षेत्र	23.3	0.8	उ.न.

उ.न. : उपलब्ध नहीं

*अप्रैल-जनवरी से संबंधित

(आरबीआई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसआई) कॉरपोरेट क्षेत्र डेटा का उपयोग किया गया है। 2014-15 की तीसरी तिमाही के लिए कॉरपोरेट आय पर सूचना की क्रमिक प्रवाह का विश्लेषण यह दर्शाता है कि नए श्रृंखला (चार्ट बी) में जो उपलक्षित है उससे आय संवृद्धि काफी कमज़ोर रही है। सेवा कर वसूली भी कमज़ोर



रही है। ‘वित्तीय, रियल एस्टेट और कारोबार सेवा’ में 13.7 प्रतिशत का उच्च संवृद्धि (स्थिर कीमत पर) आकलन में संभावित उर्धमुखी झुकाव (upward bias) को दर्शाता है। अनुमान है कि मई 2015 के अंत तक जारी किया जाने वाला 2014-15 का संशोधित आकलन दूसरी छमाही को समाहित करते हुए बेहतर सूचना समाविष्ट करेगा और समष्टि स्तर पर आर्थिक गतिविधि की स्थिति को और स्पष्ट करेगा।

संवृद्धि दर (बॉक्स III.1) दोनों के संदर्भ में प्रमुख संकेतक है। कॉरपोरेट निष्पादन के परम्परागत संकेतक जो विशेष रूप से उत्पादन में हलचल जानने के लिए उपयोग किया जाता है और पुराने बेस में

श्रृंखलाओं को करीब से पता लगाता है, ‘स्थापित अप्रोच’ (पुरानी श्रृंखला) और ‘उद्यम अप्रोच’ (नई श्रृंखला) के बीच अंतर के लिए लेखांकन के बावजूद इसे नई श्रृंखला से हटा दिया गया।

आपूर्ति के संदर्भ में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के आने में देरी तथा विशेष रूप से मौसम के शुरुआती दिनों में बारिश की कमी और असमानताएं जिससे खरीफ फसल प्रभावित हुई, के कारण कृषि गतिविधि में 2014-15 के दौरान कमी आई। तीसरी तिमाही में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से सकल देशी उत्पाद 0.4 प्रतिशत (सारणी III.4) कम हुआ। शुरुआती अनुमान यह था कि खरीफ फसल से हुई कमी की भरपाई रवि फसल से होगी लेकिन मिट्टी में नमी के अभाव और जलाशयों में पानी की कमी के कारण तीसरी और चौथी तिमाही तक यह सम्भव नहीं हो पाया और इसे अपर्याप्त तथा असमान उत्तर-पूर्व मानसून ने और अधिक बढ़ा दिया। इन कारकों को रेखांकित करते हुए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान ने 2014-15 में खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में क्रमशः 3.2 और 8.9 प्रतिशत तक घटने की ओर इशारा किया है। खाद्यान्न के अंतर्गत चावल और दलहन का उत्पादन क्रमशः 3.4 और 6.8 प्रतिशत घटा है। आगे, मार्च के शुरुआत में बेमौसम बारिश और ओले-वृष्टि से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन

स्थिर रहने के अनुमान के बावजूद क्या यह कृषि उत्पादन की कमी की भरपाई कर पाएगी यह देखने की बात है।

औद्योगिक क्षेत्र से निष्क्रियता हटी है और 2014-15 में लगातार दूसरे साल के लिए वृद्धि देखी गई है। यद्यपि तिमाही डेटा का विश्लेषण इस ओर इंगित कर रहा है कि खनन तथा उत्खनन और विनिर्माण में संवृद्धि घटी है। इससे यह अर्थ निकलता है कि चौथी तिमाही में औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र को क्रमशः लगभग 9 और 11 प्रतिशत की संवृद्धि प्राप्त करनी होगी जो अभी तक प्राप्त सूचना के बेस पर महत्वाकांक्षी प्रतीत हो रहा है। प्रमुख उद्योग जो दूसरे उद्योगों को महत्वपूर्ण आउटपुट आपूर्ति करते हैं और औद्योगिक आउटपुट सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 38 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, दिसम्बर 2014 से उनमें धीमापन देखने को मिल रहा है जो संवृद्धि संवेग में शिथिलता की ओर सकेत कर रही है। ढांचागत व्यवरोध से प्रमुख उद्योगों यथा इस्पात, प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और उर्वरक के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। आईआईपी में खनन और उत्खनन तथा बिजली उत्पादन में आई गिरावट इस व्यवरोध की ओर सकेत कर रही है।


सारणी III.4: आधारभूत कीमतों पर वर्धित कुल मूल्यों में वृद्धि

(प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15 (एड्झेट)		2013-14				2014-15		
			वृद्धि	हिस्सा	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
I. कृषि, वानिकी व मर्त्य पालन	1.2	3.7	1.1	16.2	2.7	3.6	3.8	4.4	3.5	2.0	-0.4
II. उद्योग	5.1	5.3	6.5	23.2	5.9	4.2	5.5	5.5	6.5	5.5	4.6
(i) खनन व उत्खनन	-0.2	5.4	2.3	2.9	0.8	4.5	4.2	11.5	5.1	2.4	2.9
(ii) विनिर्माण	6.2	5.3	6.8	18.0	7.2	3.8	5.9	4.4	6.3	5.6	4.2
(iii) विद्युत, गैस, जल आपूर्ति व अन्य उपयोगिताएं	4.0	4.8	9.6	2.4	2.8	6.5	3.9	5.9	10.1	8.7	10.1
III. सेवाएं	6.0	8.1	9.8	60.6	8.9	9.7	8.3	5.6	8.1	9.8	11.7
(i) निर्माण	-4.3	2.5	4.5	8.0	1.5	3.5	3.8	1.2	5.1	7.2	1.7
(ii) व्यापार, हाटल, यातायात, संचार, और ब्रॉडकास्टिंग सेसंबंधित सेवाएं	9.6	11.1	8.4	18.9	10.3	11.9	12.4	9.9	9.4	8.7	7.2
(iii) वित्तीय, रियल एस्टेट व व्यवसायिक सेवाएं	8.8	7.9	13.7	20.9	7.7	11.9	5.7	5.5	11.9	13.8	15.9
(iv) लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	4.7	7.9	9.0	12.8	14.4	6.9	9.1	2.4	1.9	6.0	20.0
IV. आधारभूत कीमत पर जीवाएं	4.9	6.6	7.5	100.0	7.2	7.5	6.6	5.3	7.0	7.8	7.5


स्रोत: केंद्रीय सार्विकीय कार्यालय। एड्झेट: अग्रिम आकलन

जब परिणाम कुल कारक उत्पादकता (total factor productivity) के योगदान में तेज गिरावट को दर्शाते हैं, जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था। उत्पादन कार्य दृष्टिकोण का एक उपयोगी विकल्प टाइम श्रृंखला प्रणाली का उपयोग करना है जो संभाविक आउटपुट का आकलन सिर्फ पिछले आंकड़ों में निहित सूचना से कर सकता है, चाहे इनका पूर्ववृत्त कितना भी छोटा क्यों न हो। होडरिक-प्रेसकोट (एचपी) और फिल्टर्स जैसे विभिन्न एकवर (Univariate) फिल्टरिंग तकनीकों का प्रयोग और एक साथ पिरोए गए (sliced) त्रैमासिक जीवीए श्रृंखला से निर्मित बहुचर (multivariate) फिल्टर सूचित करते हैं कि आउटपुट अंतराल (अर्थात् वास्तविक आउटपुट घटाव संभाविक आउटपुट) 2012-13 से क्रृत्यात्मक रहा है चाहे तकनीक जो भी हो (चार्ट ए)।



रिजर्व बैंक की हाल की 'आदेश बही, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (आईबीआईसीयूएस) दर्शाता है कि क्षमता उपयोग (सीयू) पिछली तिमाही की तुलना में 2014-15 की तीसरी तिमाही में एक दायरे के भीतर तक रहा और एक वर्ष पूर्व के अपने स्तर से कम हुआ। (चार्ट III.7)

रियल अर्थव्यवस्था (real economy) की स्थिति का समग्र आकलन दर्शाता है कि सुधार में धीरे-धीरे तेजी आ रही है। अत्यधिक मंदी और संरचनात्मक सख्ती निवेश मांग में तेजी से सुधार की राह का रोड़ा बने हुए हैं। नए निवेश प्रोजेक्टों से नक्दी प्रवाह की अनिश्चितता कमज़ोर निवेश चक्र का कारण बन रही है। जब तक आगे संरचनात्मक सुधार से उत्पादकता हासिल नहीं होता है, कम बचत और निवेश दर मजबूत सुधार के लिए जोखिम बन सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लक्ष्य आधारित प्रगति रेलवे और रक्षा में एफडीआई को बढ़ावा देने, सभी उचित अनुमोदनों के साथ निजी क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने, प्रोजेक्ट क्लियरेंस में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाने और कोल ब्लॉक नीलामी सहित



इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हाल के सुधार उपायों से इन्फ्रास्ट्रक्चर अवरोध के दूर होने और मध्यम अवधि विकास आयामों में तेजी आने का अनुमान है।

IV. वित्तीय बाजार और चलनिधि स्थिति

प्रचुर मात्रा में वैश्विक चलनिधि और निवेशकों की जोखिम वहन क्षमता में उत्तार-चढ़ाव के बीच 2014-15 की दूसरी छमाही में भारत में वित्तीय बाजारों में सुदृढ़तापूर्वक तेजी आई। इस तेजी को घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार से समर्थन प्राप्त हुआ। सभी क्षेत्रों में चलनिधि पर्याप्त मात्रा में रही और यह पता टर्नओवर में फिर से वृद्धि, ब्याज दरों में नरमी, रुपये की विनिमय दर में मजबूत होने के रूझान और इक्विटी बाजारों के ऐतिहासिक उंचाइयां छूने में परिलक्षित हुई।

सितंबर 2014 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) के बाद से प्रतिफलों की वैश्विक खोज और निकट भविष्य में अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के डर में कमी और यूरो क्षेत्र तथा जापान में अति उदार मौद्रिक सहजता की शुरुआत से 2014-15 की तीसरी और चौथी तिमाहियों में घरेलू वित्तीय बाजारों में उछाल रहा। आवक डाटा के कारण छिटपुट अस्थिरता को छोड़ दें तो भारत अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में स्पष्ट रूप से पोर्टफोलियो पुर्नआबंटन के लिए एक पसंदीदा स्थल बन गया। सभी क्षेत्रों में चलनिधि की स्थितियां विस्तार की ओर थी जिससे व्यापार गतिविधि को बढ़ावा मिला।

IV.1 वित्तीय बाजार


त्योहारों के कारण मुद्रा मांग में वृद्धि से अक्तूबर के तीसरे सप्ताह के आसपास कुछ अनिरंतर वृद्धि को छोड़कर मुद्रा बाजार


में तीसरी तिमाही के दौरान ब्याज दरों में कमी आई। इसके बाद दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में अग्रिम कर भुगतान और तिमाही के अंत में तुलनपत्रों में समायोजन के कारण ब्याज दरों में कमी आई। नीतिगत रेपो दर में दो बार कमी के कारण मौद्रिक नीति रूख में हुए परिवर्तन से ब्याज दरों में कमी आई जो कि चौथी तिमाही में और कम हो गई।

मौद्रिक नीति की नई परिचालन प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व सक्रिय चलनिधि प्रबंधन ने मुद्रा बाजारों के माध्यम से नीतिगत परिवर्तनों के निर्बाधरहित संचरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनरलाइज्ड ऑटोग्राफ्रेसिव कंडीशनल हीटरोस्केडासटीसिटी (जीएआरसीएच) के माध्यम से मापी गई दैनिक अस्थिरता में स्पष्ट कमी भी हुई हालांकि 2014-15 के अंत के लिए ये अनुमान वर्ष के अंत में कॉल दरों में होने वाली वृद्धि से बहुत प्रभावित दिखाई देते हैं (चार्ट IV.1)। इस संदर्भ में मौद्रिक नीति पर करार फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक को आदेशिष्ट करता है कि वह परिचालन लक्ष्य और मौद्रिक नीति की प्रक्रिया तथा समय-समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को सावजनिक ढोमेन में डाले (बॉक्स IV.1)।

अन्य मुद्रा बाजार क्षेत्रों में मांग मुद्रा बाजार के अनुरूप ही गतिविधि रही। संपार्श्वकृत क्षेत्रों अर्थात् संपार्श्वकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) और बाजार रेपो में गतिविधियों के स्थिर माझेशन से मुद्रा बाजार की मात्रा में कमी हुई जो कि वर्तमान में कुल एक दिवसीय मात्रा का 10-11 प्रतिशत है।

चार्ट IV.1: मांग मुद्रा दर






2014-15 की तीसरी तिमाही में चलनिधि की स्थितियों में सुधार हुआ जो कि त्यौहार के दिनों के आसपास अस्थायी दबावों, दिसंबर के मध्य में अग्रिम कर के भुगतान और तिमाही के अंत में आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने को छोड़कर संरचनात्मक और घर्षण कारकों के मेल को दर्शाता है। चौथी तिमाही में जनवरी 2015 के दूसरे सप्ताह से सरकारी खर्च में कटौती, क्रेडिट मांग में वृद्धि और मुद्रा की मांग में मौसमी वृद्धि के कारण चलनिधि की स्थितियां सीमित हुईं। रिजर्व बैंक के पूर्व सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालनों ने यह सुनिश्चित किया कि मांग दरों नीति दर के आसपास की श्रेणी में ही रहें जिससे दैनिक अस्थिरता में कमी हो (चार्ट IV.12)।

क्षेत्र विशिष्ट पुनर्वित्त में कमी करने की डॉ उर्जित आर. पटेल समिति की सिफारिश के अनुसरण में जून 2014 से शुरू करते हुए नियर्यात ऋण पुनर्वित्त(इसीआर) सीमा को तीन चरणों में कम

किया गया और अंत में 7 फरवरी 2015 से प्रणाली स्तर चलनिधि में मिला दिया गया। सुचारू परिचालनों को सुकर बनाने के और उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने 21 फरवरी 2015 से रिवर्स रेपो और एमएसएफ परिचालनों को प्रत्येक शनिवार को करना शुरू किया।

घरेलु बुनियादी आंकड़ों में सुधार और वैश्विक जोखिम उठाने की भूख की पृष्ठभूमि में 2014-15 की दूसरी छमाही में वित्तीय बाजारों में समग्र रूप से कारोबार में तेजी रही। समग्र वैश्विक चलनिधि स्थितियों का विकास उच्च तीव्रता की घटनाओं जैसे कि अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि, अन्यत्र स्थानों पर मौद्रिक निभावों और भू-राजनैतिक बिंदुओं पर निर्भर रहा। चलनिधि स्थितियां स्थिर रहीं और एकदिवसीय मांग मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव अधिकांशत-नीतिगत रेपो दर के आसपास रहा।



जारी वक्तव्य में वायदा दिशानिर्देश को शांतिमय पाया, ईएमई में पोर्टफोलियो अंतरप्रवाह में अस्थिरता वापस आयी है और अपेक्षाकृत कमज़ोर घरेलू समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांतों वाले देशों के प्रति निवेशक भेदभाव करने लगें।

यूएस डालर प्रमुख करेंसी तथा मुख्यतया ईएमई करेंसी के विरुद्ध वृद्धि दर्ज किया है। जून 2014 के मध्य से डालर इंडेक्स ने दोनों, सांकेतिक तथा वास्तविक टर्म में प्रमुख करेंसी के विरुद्ध 20% की वृद्धि दर्ज किया है। संक्षेप में, हाल की घटनाओं में अनिश्चितता

तथा भविष्य में कच्चे तेल के दामों में अनिश्चितता ने वैश्विक वृद्धि आउटलुक में नया आयाम जोड़ा है। आशा की बात यह है कि तेल का कम दाम तेल आयात करने वाले आयातकों के क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा, निराशा की बात यह है कि तेल नियांतकों कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विविध मौद्रिक नीतियों के कारण बाजार अवधारणाओं में बदलाव आधारित तथा पूँजी प्रवाह और करेंसी बाजार अस्थिरता के परिणाम स्वरूप जोखिमों में वृद्धि होगी।